



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 —Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 726]
No. 726]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 1997/पौष 3, 1919
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 1997/PAUSA 3, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1997

का. आ. 894 (अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कॉलम 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया है, को उक्त तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार उसकी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1	2	3
67	58	उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के समीप रा. रा. 24 के 17.65 कि. मी. पर चौराहे से शुरू होने वाला राजमार्ग जो मेरठ, मुजफ्फर नगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्र प्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ से गुजरते हुए माणा में समाप्त होता है।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-14019/10/97-पीएल]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**(Roads Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 1997

S.O. 894 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highway, now declared to be a national highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the serial number, the national highway number and the description thereof as indicated in the said Table.

TABLE

Sl. No. in the schedule to the National Highways Act, 1956	National Highway No.	Description of National Highway
1	2	3
67	58	The highway starting from its junction with NH-24 in Km. 17.65 near Ghaziabad and passing through Meerut, Muzaffar Nagar, Roorkee, Haridwar, Rishikesh, Rudra Prayag, Chamoli, Joshimath, Badrinath and terminating at Mana in Uttar Pradesh.

[F. No. RW/NH-14019/10/97-PL]

A. D. NARAIN, Director-General (Road Development) & Addl. Secy.